



PHYSICS

BOOKS - NCERT PHYSICS (HINDI)

गुरुत्वाकर्षण

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. पृथ्वी एक गोले का सन्निकट रूप है। यदि इसके अभ्यन्तर में हर स्थान पर एक समान घनत्व का द्रव्य नहीं है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण

A. केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा, परन्तु हर स्थान पर समान नहीं होगा।

B. का हर स्थान पर समान मान होगा परन्तु केंद्र की ओर निर्दिष्ट नहीं होगा।

C. परिमाण में हर स्थान पर समान तथा केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा।

D. किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

2. पृथ्वी से प्रेक्षण करने पर सूर्य लगभग वृत्ताकार कक्षा में गति करता प्रतीत होता है। बुध जैसे किसी अन्य ग्रह की गति के लिए पृथ्वी से प्रेक्षण करने पर भी यह बात

A. इसी प्रकार सत्य होगी।

- B. सत्य नहीं होगी क्योंकि पृथ्वी एवं बुध के बीच बल व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार नहीं होता।
- C. सत्य नहीं होगी क्योंकि बुध पर प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के कारण है।
- D. सत्य नहीं होगी क्योंकि बुध गुरुत्वाकर्षण बलों के अतिरिक्त अन्य बलों से भी प्रभावित होता है।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

3. पृथ्वी के विभिन्न बिंदु सूर्य से कुछ भिन्न दूरियों पर होते हैं। अंतः गुरुत्वाकर्षण के कारण भिन्न बलों का अनुभव करते हैं। एक दृढ़-पिंडो के लिए हम जानते हैं कि यदि इसके भिन्न बिन्दुओं पर भिन्न-भिन्न बल कार्य करें, तो

इसकी परिणामी गति इस प्रकार होगी। जैसे कि एक नेट बल इसके द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित होकर इसमें स्थानतरीय गति उत्पन्न कर रहा हो तथा नेट बल-आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के पारितः घूर्णी गति उत्पन्न कर रहा हो। पृथ्वी -सूर्य निकाय के लिए पृथ्वी में एक समान घनत्व के गोले के सदृश्य मानकर

- A. बल आघूर्ण शून्य है।
- B. बल आघूर्ण पृथ्वी को चक्रण कराता है।
- C. दृढ़-पिंड परिणाम यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि पृथ्वी दृढ़-पिंड के सदृश्य भी नहीं है।
- D. बल आघूर्ण पृथ्वी को सूर्य के चारो ओर गति कराता है।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

4. पृथ्वी कि परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की आयु परिमित होता है तथा कभी-कभी उपग्रहों का कचरा पृथ्वी पर गिरता है। इसका कारण यह है कि-

A. सौर सेल तथा बैटरियां समाप्त हो जाती है।

B. गुरुत्वाकर्षण नियम भीतर की ओर सर्पिल प्रक्षेप का संकेत देता है।

C. श्यान बल उपग्रह की चाल को कम करते है और इस प्रकार उपग्रह की ऊंचाई धीरे-धीरे घटती है।

D. अन्य उपग्रहों से संघट्ट होता है।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

5. पृथ्वी तथा चन्द्रमा दोनों पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, सूर्य से प्रेक्षण करने पर चन्द्रमा की कक्षा-

A. दीर्घवृत्तीय होगी।

B. पूर्णरूप से दीर्घवृत्तीय नहीं होगी क्योंकि उस पर लगा कुल गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय नहीं है।

C. दीर्घवृत्तीय नहीं होगी, परन्तु आवश्यक रूप से एक बंद बक्र होगी।

D. पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण दीर्घवृत्तीय से काफी भिन्न होगी।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

6. हमारे सौर परिवार के अन्तर्ग्रहिक क्षेत्र में द्रव्य के टुकड़े (ग्रहों की तुलना में, आमाप में बहुत छोटे) विद्यमान हैं जिन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं।

- A. सूर्य की तुलना में बहुत कम द्रव्यमान के होने के कारण सूर्य के चारों ओर गति नहीं करेंगे।
- B. अपने लघु द्रव्यमानों के कारण अनियमित ढंग से गति करेंगे तथा बाह्य अंतरिक्ष में चले जाएँगे।
- C. बंद कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर गति करेंगे, परन्तु केप्लर के नियमों का पालन नहीं करेंगे।
- D. ग्रहों की भांति कक्षाओं में गति करेंगे तथा केप्लर के नियमों का पालन करेंगे।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

7. असत्य (गलत) विकल्प का चयन कीजिये-

- A. जड़त्वीय द्रव्यमान किसी बाह्य बल द्वारा किसी पिंड को त्वरित करने में कठिनाई की माप है जबकि गुरुत्वीय द्रव्यमान उस पर किसी बाह्य द्रव्यमान द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के निर्धारण में प्रासंगिक होता है।
- B. गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान समान होते हैं यह एक प्रयोगिक परिणाम है।
- C. गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान समान होने के कारण पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण समान होता है।
- D. प्रोटोन जैसे कणों का गुरुत्वीय द्रव्यमान आस-पास के भारी पिंडों की उपस्थिति पर निर्भर कर सकता है जबकि जड़त्वीय द्रव्यमान ऐसा नहीं कर सकता।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

8. $2M$, m तथा M द्रव्यमान के कण क्रमशः A, B तथा C बिन्दुओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि $AB = \frac{1}{2}(BC)$ है तथा M की तुलना में m बहुत छोटा है और समय $t=0$ पर ये सभी विराम में हैं (चित्र 8.1) तदन्तर, किसी संघट्ट से पूर्व-



- A. m विराम में रहेगा।
- B. m , M की ओर गति करेगा।
- C. m , $2M$ की ओर गति करेगा।
- D. m दोलनी गति करेगा।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

9. नीचे दिए गए कौन से विकल्प सही है ?

A. गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर घटता है।

B. गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है (पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानिये)।

C. अक्षांश बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है।

D. गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

10. यदि गुरुत्वाकर्षण नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम से व्युत्क्रम घन नियम हो जाये, तो

A. ग्रहो की कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं होगी।

B. ग्रहो की वृताकार कक्षाएं संभव नहीं होगी।

C. हाथ से पृथ्वी के पृष्ठ पर फेंके गए पत्थर की प्रक्षेप गति लगभग परवलीय होगी।

D. एक समान घनत्व के गोलीय खोल की भीतर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

11. यदि सूर्य का द्रव्यमान 10 गुना छोटा तथा गुरुत्वीय नियतांक G परिणाम में 10 गुना बढ़ा हो, तो

A. a. पृथ्वी पर चलना अधिक कठिन हो जायेगा।

B. b. पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा।

C. c. वर्षा की बूंद अत्यधिक तेजी से गिरेगी।

D. d. वायुयान को अधिक तीव्रता से चलना पड़ेगा।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

12. यदि सूर्य तथा पृथ्वी पर विशाल मात्रा के विजातीय आवेश हो, तो

A. केप्लर के सभी तीनों नियम फिर भी वैध रहेंगे।

B. केवल तीसरा नियम वैध होगा।

C. दूसरे नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

D. पहला नियम फिर भी वैध होगा।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

13. ऐसे संकेत हैं कि गुरुत्वीय नियतांक G का मान भविष्य में अत्यधिक बड़े समय के पश्चात (लाखों/करोड़ों वर्ष में) कम होता जाएगा। यदि हमारी पृथ्वी के लिए ऐसा हो, तो

- A. कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- B. लाखों/करोड़ों वर्ष के पश्चात हम (पृथ्वी) अधिक तप्त हो जाएगी।
- C. पृथ्वी परिक्रमण (सूर्य की) करेगी। पूर्णतः बंद कक्षाओं में नहीं।
- D. काफी अधिक समय के पश्चात हम (पृथ्वी) सौर परिवार को छोड़ देंगे।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

14. मान लीजिये r_1 और r_2 पर स्थित दो द्रव्यमानो m_1 तथा m_2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों F_1 तथा F_2 के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को

$$F_1 = -F_2 = -\frac{r_{12}}{r_{12}^3} GM_0^2 \left(\frac{m_1 m_2}{M_0^2} \right)^n$$

द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ M_0 एक स्थिरांक है जिसकी विमा द्रव्यमान की है।

$r_{12} = r_1 - r_2$ तथा n कोई संख्या है। ऐसे प्रकरण में

A. पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण विभिन्न पिंडो के लिए भिन्न-भिन्न होगा।

B. केप्लर के तीनों नियमों में से कोई भी वैध नहीं होगा।

C. केवल तीसरा नियम ही अवैध हो जाएगा।

D. n के ऋणात्मक होने पर जल से हल्के पिंड जल में डूब जाएँगे।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

15. निम्नलिखित में कौन सत्य है ?

A. कोई ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर-दक्षिण दिशा में गति करता है।

B. कोई तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के परितः पूर्व-पश्चिम दिशा में गति करता है।

C. कोई तुल्यकाली-उपग्रह पृथ्वी के परितः पश्चिम -पूर्व दिशा में गति करता है।

D. कोई ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के परितः पूर्व-पश्चिम दिशा में गति करता है।

Answer:



वीडियो उत्तर देखें

16. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विस्तारित पिंड का द्रव्यमान केंद्र तथा इसका गुरुत्व केंद्र

- A. सदैव एक ही बिंदु पर होते है चाहे पिंड का साइज कुछ भी हो।
- B. केवल गोलीय पिंडो के लिए सदैव एक ही बिंदु पर होते है।
- C. कभी भी एक बिंदु पर नहीं हो सकते।
- D. आमाप में 100m से छोटे पिंडो के लिए एक दूसरे के निकट होते है।

Answer:

 वीडियो उत्तर देखें

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वायुमंडल में वायु के अणु पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा आकर्षित किये जाते हैं। स्पष्ट कीजिये, ये सभी वृक्ष से सेब की भांति पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते ?

 वीडियो उत्तर देखें

2. केंद्रीय बल तथा अकेंद्रीय बल का एक-एक उदाहरण दीजिये।

 वीडियो उत्तर देखें

3. मंगल के लिए क्षेत्रीय वेग तथा समय के बीच ग्राफ आरोपित कीजिये।

 वीडियो उत्तर देखें

4. सूर्य के परितः पृथ्वी के क्षेत्रीय वेग की दिशा क्या है?



वीडियो उत्तर देखें

5. दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित हो जाएगा, यदि इनके बीच के पृथक्कन को समान रखते हुए उन्हें जल में डूबा दिया जाता है ?



वीडियो उत्तर देखें

6. क्या यह संभव है कि किसी पिंड में जड़त्व हो परन्तु भार हो ?



वीडियो उत्तर देखें

7. हम किसी आवेश का विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षण उसे खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या हम किसी पिंड का पास के द्रव्य के गुरुत्वीय प्रभाव

से परिरक्षण उसे किसी खोखले गोले के भीतर रखकर अथवा किसी अन्य विधि द्वारा कर सकते हैं ?



वीडियो उत्तर देखें

8. किसी छोटे अंतरिक्षयान में, जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन का साइज बड़ा है, तो वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है ?



वीडियो उत्तर देखें

9. किसी खोखले गोलीय खोल (त्रिज्या R और एक समान घनत्व का) तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच गुरुत्वकर्षण बल F है। F तथा r के बीच ग्राफ की

प्रकृति दर्शाए जबकि r बिंदु एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल के केंद्र से दुरी है।

 वीडियो उत्तर देखें

10. अपसौर और उपसौर स्थितियों में से किस पर पृथ्वी का वेग अधिक होगा? क्यों ?

 वीडियो उत्तर देखें

11. विषुवत रेखीय समतल तथा निम्नलिखित के कक्षीय समतल के बीच कितना कोण होता है ?

(a) ध्रुवीय उपग्रह

(b) तुल्य काली उपग्रह

 वीडियो उत्तर देखें

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. माध्य सौर दिन उन दो कर्मगत दोपहरों के बीच का काल-अंतराल है जब सूर्य शिरो बिंदु (ध्रुव वृत्त) से गुजरता है।

नक्षत्र दिन किसी दूरस्थ सौर के माध्य बिंदु (शिरो बिंदु) (ध्रुव वृत्त) से दो क्रमागत संक्रमणों के बीच काल-अंतराल है।

उपयुक्त आरेख खींचकर, जो पृथ्वी का चक्रण तथा कक्षीय गति दर्शाता हो, यह दर्शाइए कि माध्य सौर दिन से 4 मिनट अधिक अवधि का होता है। दूसरे शब्दों में, दूरस्थ तारा प्रत्येक क्रमागत दिनों में 4 मिनट पहले उदय होगा।

(संकेत: आप पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार मान सकते हैं)।



वीडियो उत्तर देखें

2. दो सर्वसम भारी गोलों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का 10 गुना है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई पिंड स्थायी साम्य में होगा अथवा अस्थायी साम्य में ? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिये।



वीडियो उत्तर देखें


3. पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते उपग्रह के लिए निम्नलिखित ग्राफो की प्रकृति दर्शाइए।

- (a) गतिज ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या R के बीच
- (b) स्थैतिज ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या R के बीच
- (c) कुल ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या R के बीच



वीडियो उत्तर देखें

4. चित्र 8.2 में कई वक्र दर्शाए गए हैं। (वायु के घर्षण की उपेक्षा करके) तर्क सहित यह स्पष्ट कीजिये कि इनमें से कौन-से वक्र किसी प्रक्षेप्य के संभावित प्रक्षेप-पथ हो सकते हैं।




[वीडियो उत्तर देखें](#)

5. m द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, अर्थात् उसे पृथ्वी के केंद्र से R से $2R$ दुरी तक ले जाया जाता है। इसकी स्थैतिज ऊर्जा में लब्धि कितनी है।

[वीडियो उत्तर देखें](#)

6. r त्रिज्या तथा M द्रव्यमान के किसी पतले वृत्ताकार छल्ले के केंद्र से गुजरने वाले अभिलंब के अनुदिश h दूरी पर स्थित बिंदु P पर कोई द्रव्यमान m रखा है (चित्र 8.3)।



यदि इस द्रव्यमान को और अधिक दूरी पर प्रकार ले जाये कि $OP=2h$ हो जाये, तो यदि $h=r$ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना कम हो जाएगा ?

[वीडियो उत्तर देखें](#)

1. सूर्य के समान किसी तारे के चारो ओर कई पिंड विभिन्न दूरियों पर गति कर रहे है। यह मानिए कि सभी वृत्ताकार कक्षाओं में गमन करते है। मान लीजिये कि तारे के केंद्र से दुरी r है तथा इसका रैखिक वेग v , कोणीय वेग w , गतिज ऊर्जा K , गुरुत्वीय स्थैतिज ऊर्जा U , कुल ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग L है । जैसे -जैसे कक्षा की त्रिज्या r में वृद्धि होती है, तो उपरोक्त राशियों में से किनमे वृद्धि होती है ओर किनमे कमी होती है ?



वीडियो उत्तर देखें

2. भुजा L के किसी नियमित षट्भुज के शीर्षों पर m द्रव्यमान के छः बिंदु-द्रव्यमान स्थित है। इनमे से किसी भी द्रव्यमान पर कुल गुरुत्वाकर्षण बल परिकलित कीजिये।



वीडियो उत्तर देखें

3. संचार के लिए पृथ्वी की विषुवतीय तुल्यकाली कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित किया जाता है।

(a) इस प्रकार के उपग्रह की ऊंचाई परिकलित कीजिये।

(b) उपग्रहों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिये जो संचार के लिए समस्त पृथ्वी की व्याप्ति के लिए आवश्यक हो तथा विषुवत वृत्त के किसी बिंदु से कम से कम एक उपग्रह अवश्य दिखाई दे।

[

$$M = 6 \times 10^{24} \text{kg}, R = 6400 \text{km}, T = 24 \text{hr}, G = 6.67 \times 10^{-11}$$

SI इकाई]



वीडियो उत्तर देखें

4. कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किसी दीर्घवृत्तीय कक्षा में $6R$ के अपसौर तथा $2R$ के उपसौर सहित परिक्रमण कर रहा है जबकि $R = 6400\text{km}$ पृथ्वी की त्रिज्या है। कक्षा की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिये। भूमिउच्च तथा भूमिनीच पर उपग्रह के वेग ज्ञात कीजिये। यदि इस उपग्रह को $6R$ त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करना हो तो क्या किया जाना चाहिए ? [$G = 67 \times 10^{-11}$

SI units and $M = 6 \times 10^{24}\text{kg}$]



वीडियो उत्तर देखें